

Skyweb Infotech Limited

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024
Tel.: 0120-6721900 | **Email:** info@skywebindia.in | **Web:** www.skywebindia.in
CIN No. : L72200DL1985PLC019763

Ref. No. - SIL/CO/SE/2022-23/54

4th February, 2023

To
Listing Department,
Metropolitan Stock Exchange of India Limited,
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No. C 62,
G - Block, Opp. Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 098

SYMBOL: SKYWEB

Subject: Submission of Newspaper Clippings regarding publication of Extract of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022


Dear Sir(s),

With reference to captioned subject, this is to inform you that pursuant to Regulation 47 and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the extract of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022, has been published in the following newspapers on February 04, 2023:

1. Financial Express (English); and
2. Hari Bhoomi (Hindi)

Kindly take the same on your records.

Thanking You,
Yours truly
For Skyweb Infotech Limited



Yamini
Company Secretary and Compliance Officer

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
4/1, 2nd Institutional Area, Sector 19, Faridkot, Punjab
Himali Khas, New Delhi-110006, Ph: 011-48657904
Warehouse for all kinds of **Public Notice**

**CALLING E-TENDERS COM REVERSE AUCTION FOR MANUFACTURE
AND SUPPLY OF BLCSK RACKS**

CWC CO-DEPROJ/232/2020-COMMERCIAL Date: 02.02.2021

Central Warehousing Corporation (CWC) invites e-tenders com reverse auction from the interested parties to manufacture and supply Three (3) (BLCSK RACKS/54 BLCSKA WAGONS, 31 BLCSB WAGONS & 03 BVCM WAGONS i.e. BRAKE (VANS). Interested parties may visit the website www.cwcprocure.nic.in for complete details, terms and conditions of Tender Document. The last date for submission of bids is 17.02.2021.

CWC CO-DEPROJ/232/2020-COMMERCIAL CWC CO-NEW DELHI

"IMPORTANT"

Printed notices appear prior to acceptance of an order and copy. It is not possible to verify its contents. The India Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any money or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Public Notice

Notice is hereby given to the public at large that, Mrs. Kamlesh, who passed away on 25/08/2023 on the order of the court in the Pt. A-4, No. 18, enclosing M.R. No. 1, Girdaspur, Ghaziabad, U.P. ("said property"). Mr. Sheeshal (Sush) (Husband), Mr. Sateendra (Kamlesh), Mr. Nitin (Sushila), Mrs. and Poonam (Daughter) are the only legal heirs of Late Mrs. Kamlesh and any claim / claims and / or any objection or claim in the said property or any part thereof by any person/ persons are hereby required to make same in writing to Adw. Prakash Ranawat, Working office of CT No. 13B, Lawyers Block, Saket Court Complex, New Delhi within 7 days from the publication of this Notice. Otherwise without reference to any such claim / claims and / or any objections or the same will be considered as waived or abandoned.

Dated This 06th day of February, 2023. Place- Delhi Adv. Prakash Ranawat (Mob) 9958453315

INDORE MUNICIPAL CORPORATION, INDORE (M.P.)

NOTICE INVITING TENDER

Date : 01.02.2023

No: 01/ABC/Health/2023


Indore Municipal Corporation invites online Tender for following work on www.mptenders.gov.in

S.No.	Online Tender ID	Name of Work	Estimated Cost of the Work	EMD	Cost of Tender Document	Time duration
1	2023_UAD_248962	Empanelment of Agencies for Neutering (Castration) of Stray Dogs (Male/ Female) in Indore Municipal Area.	400 Lakh	₹2,00,000/-	₹15,000/-	3 Years

S.No.	Details	Date and Timing
1	Start Date for online tender form purchasing	02/02/2023 (11.00 AM)
2	Pre Bid Meeting	16/02/2023 (12.00 PM)
3	Last date for online tender form purchasing	27/02/2023 (17.30 PM)
4	Last date for online tender submission	27/02/2023 (17.30 PM)
5	Opening date for Technical Bid	01/03/2023 (15.00 PM)
6	Opening date for Financial Bid	06/03/2023 (15.00 PM)

All correspondence and submission of technical document is to be made at the A.B.C office, Health Department, Indore Municipal Corporation, Indore (M.P.) Commissioner I/MC reserves the right to accept or reject any application and cancel, reduce or void the contract under this tender without assigning any reason.

Health Officer, Health Department
Indore Municipal Corporation, Indore

 SBI	STATE BANK OF INDIA, STRESSED ASSETS MANAGEMENT BRANCH-I									
	12th Floor, Jawahar Nagar Bhawan (STC Building), 1, Tolstoy Marg, Jangpoh, New Delhi-110001,		E-mail : sbi.04109@sbi.co.in							
	Publication of Notice regarding possession of property u/s 13(4) of SARFAESI Act 2002									
Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(4) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, a demand notice was issued on the dates mentioned against an account and stated hereinafter calling upon them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of said notice.										
The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and Guarantor the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said Act on the dates mentioned against each account.										
The Borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the STATE BANK OF INDIA for an amount and interest thereon.										
The borrowers attention is invited to provisions of Sub-section(8) of Section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.										
Name of Account/ Borrower & address	Name of Proprietor/ Partners/ Guarantors	Description of the property mortgaged/ charged	Date of Demand Notice	Date of Possession Notice						
M/s Nipman Fastener Industries Pvt. Ltd. Office No. 10/4, 10th Floor, P.L.F. Jasola Tower 3, Plot No. 11, DDA Dist. Centre, Jasola, New Delhi-110044	Mr. Pravin Kumar Malhotra (Guarantor)	1. Property owned by : Nipman Fastener Industries Pvt.Ltd First Pari-passu charge on Property situated at C-198, Site-1, Industrial Area, Bulandshahar Road, Ghaziabad, area measuring 5616sq. yards	27-10-2022	02-02-2023						

Date : 02-02-2023 Place : New Delhi Sd/- Authorized Officer, State Bank of India
 बैंक ऑफ बड़ोदा
 Bank of Baroda
 Regional Office Stressed Asset Recovery Branch (South Delhi),
 Bank of Baroda Bldg., 2nd Floor, 16, Sansad Marg, New Delhi -110001
 Email: sardel@bankofbaroda.com

SALE NOTICE
FOR IMMOVABLE
PROPERTIES

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES "ANNEXURE - B"

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower, Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on **"As is where is", "As is what is", and "Whatever there is"** basis for recovery of dues in below mentioned accounts. The details of Borrower(s)/Mortgagor (s)/ Guarantor (s) Secured Assets/Dues/Reserve Price/Auction date & time, EMO and Bid Increase Amount are mentioned below.

S. No	Name & Address of Borrower & Guarantors	Detailed description of the immovable property with known encumbrances, if any	Total Sale, as on 30/06/2021 as shown in the title deed under sale 13(2) of the Companies Act, 1956	Date & Time of E-auction	Reserve price (Rs.) EMD Minimum bid Maximum bid	Status of Possession (Constructive/Physical)	Property Inspection date
1.	<p>M/s MSH Network Enterprises (Prop Mr. Shankar Nath Jha), 205, 2nd Floor Sylark Building No.6, Nehru Place, New Delhi-110019</p> <p>Prop. Mr. Shankar Nath Jha S/o Mr. Sachidanand Jha, Apartment No. 201, Apsara Tower, 2nd floor, CMAX "The Forest Spot" Sector-43, Badli-Surkund Road, Faridabad, Haryana-121003</p> <p>Guarantors: 1.Mr. Shamshu Nath Jha (Guarantor) S/O Mr. Shankar Nath Jha, Flat No. 4-4, 6th Floor, Tower-6, Conno Park Apartment, Sector-86, Faridabad Haryana 2. Mr. Suresh Jha (Guarantor) W/o Mr. Shamshu Nath Jha, Flat No. 4-4, 6th Floor, Tower-6, Conno Park Apartment Sector-86, Faridabad Haryana</p>	<p>No. 605 on 30/06/2021 as shown in the title deed under sale 13(2) of the Companies Act, 1956</p> <p>Rs. 2,16,94,613.11</p>	<p>14.03.2023</p> <p>02:00 PM to 06:00 PM</p>	<p>Rs. 70,00,000/-</p> <p>Rs. 7,00,000/-</p> <p>Rs. 25,000/-</p>	<p>Physical Possession</p>	<p>04.03.2023</p> <p>From 11:00 AM to 04:00 PM</p>	

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided on <https://bankofbarodahome-e-auction.html> and <https://map.jl.in>. Also, prospective bidders may contact the authorized officer on Mobile: 8099624356.

[illegible]

Name & Address of Borrower/Guarantors & Branch Name	Description of the Property	Amount	Dated/End Date of Possession/Status of Possession/Physical Symbolic	Reserve Price Earliest Month Make Initial Value
BRANCH - UVA BAZAR	All part and parcel of the property situated at Mauja Khatkhat Tappa Gurahar Parangana Tehsil Goraikhat in the name of Sri Deep Narayan Singh S/O Harshabhai Singh. Area measuring 141/25 Sq mt Bounded by: East-Land of Parnamahi, West-Land of Gorpahar, North - Land of Ramabhadra South-Land of Singhadham. Dated on 1051 of the year 1990. araj no 120 area 1526 sqt chhatan no 111 and 120 registered at sub register office District-Gorakhpur	Rs. 25,06,2015	25.06.2015	17.86 Lakh
Borrower:- Kishan Shoa and central general stores Prop:- Deep Narayan Singh S/O Harshabhai Singh, R/O Uva Bazar Gorakhpur 273407		Rs. 2,17/- Lakh + Interest & Other Charges.	04.11.2015	1.79 Lakh
Guarantor:- Mahi Kishan Singh R/O Village & Post Dugrahat Goraikhat		Symbolic		0.10 Lakh
BRANCH - BASTI	All part and parcel of the property situated at Mauja Beghat Tappa Gurahar Parangana Tehsil Goraikhat in the name of Mr. Khatkhat Raiya Singh S/O Mr. Abdul Rajak & S. M. Samsad Khatkhat R/O Nayaz Ahamed R/O 445 Area measuring 210.42 ac. as per title deed dt 24.12.2014 and 10.12.2012 of plot no-465 area 3.03 formed 316.42 sq mt situated at village beghat tappa gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur	Rs. 13,31/- Lakh + Interest & Other Charges.	20.12.2021	15.76 Lakh
Borrower:- Mr. Abdul Ahamed R/O Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur		Rs. 27,05,2022	27.05.2022	1.58 Lakh
Guarantor - 1 Mrs. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur		Symbolic		0.14 Lakh
Guarantor - 2 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 3 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 4 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 5 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 6 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 7 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 8 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 9 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 10 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 11 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 12 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 13 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 14 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 15 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 16 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 17 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 18 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 19 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 20 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 21 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 22 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 23 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 24 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 25 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 26 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 27 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 28 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 29 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 30 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 31 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 32 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 33 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 34 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 35 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 36 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 37 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 38 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 39 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				
Guarantor - 40 Mr. Narsan Khatkhat W/O Nayaz Ahamed R/O Village Beghat Tappa Gurahar Parangana Basti West Tehsil Haridasi Dist. Gorakhpur				

SKYWEB INFOTECH LIMITED CIN: L72200DL1985PLC019763 Registered Office: K-22, Second Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi - 110024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 Website: www.skywebindia.in, Email: info@skywebindia.in, Ph. No. 011-29840906											
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2022 (Figures in Lakhs except EPS)											
S. No.	Particulars	Consolidated						Quarter ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2021		
		Standalone		Consolidated		Consolidated					
		Quarter ended 31.12.2022	9 months ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2022	9 months ended 31.12.2022	Quarter ended 31.12.2022	9 months ended 31.12.2022				
1	Total Income from operations (net)	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary items	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)		
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (Exceptional and/or Extraordinary Items)	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)	(3.06)	(6.37)	(11.07)		
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Earnings per share (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	-	-	-	-	-		
(a)	Basic	(0.61)	(1.11)	(0.31)	0.09	0.87	(0.20)	(0.61)	(1.11)		
(b)	Diluted	(0.61)	(1.11)	(0.31)	0.09	0.87	(0.20)	(0.61)	(1.11)		

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the website of the Company (www.skywebindia.in) and on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msx.in).

2. The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 have been duly reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 03rd February, 2023.

For and on behalf of the Board
Skyweb Infotech Limited
Sd/-
Renu Gupta
Wholetime Director

Date: 03.02.2023
Place: Delhi

Date/Time of the Borrower's Guarantee(s)

Sr. No. Name of the Borrower

1. Mr. Kishan Singh S/o Smt. Singh, H-10, N-2/29, Near Road, Kumar Singh Nagar, Delhi-110041.

2. Mr. Prashant Kumar S/o Smt. Kishan, C-15/96, T-2, 14th Floor, Tower B, Khirwar, East Delhi District, Rajasthan - 301015.

Account/ Wallet in which EM

Ms. MSTC Ltd on the auction is

MSTC HELPOEN No. 030-490

TERMS AND CONDITIONS OF

1. E-Auction is being held on

conducted through the Bank's

2. To the best of knowledge and

independent inquiries regarding

e-Auction advertisement does

the existing and future encum

claims/risks/dues.

3. The Earnest Money Deposited

refunded. The Earnest money

by the Authorized Officer


forfeiture of the whole money

property/amount.

4. For detailed terms

<https://www.mstc.com>

[illegible]

 POONWALLA HOUSING FINANCE LIMITED FORMERLY KNOWN AS MAGNA HOUSING FINANCE LIMITED REGISTERED OFFICE : 602, 8th Floor, Zero One IT Park, S-1, 7th Floor, Ghanshyam, Mumbai - 400 008		APPLY ON/ISSUE DATE POSSESSION NOTICE FOR MOVABLE PROPERTY		
<p>Whereas, the undersigned has been appointed as the Liquidator of Poonwalla Housing Finance Limited (formerly known as Magna Housing Finance Limited) of the above Corporate Register office under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (2) of the said Act read with Rule 5 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice before dated call upon the Borrowers to pay the said outstanding dues of Rs.46,00,00,000 within 60 days from the date of the said demand notice.</p> <p>The borrowers having failed to fulfil the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him by the under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 5 of the said Act of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on or after the date of the said demand notice.</p> <p>The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Poonwalla Housing Finance Limited (Formerly known as Magna Housing Finance Limited).</p> <p>The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (3) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the said securities. Details of Property taken in possession are herein below:</p>				
SRI NO.	NAME OF BORROWERS	DESCRIPTION OF PROPERTY	DATE OF POSSESSION DEMO NOTICE	AMOUNT IN DEMAND NOTICE
1.	SHAM DUTTA ANITA DUTTA KESHA DUTTA SHAM DUTTA	ALL THAT PLOT AND PARCEL OF MARGARITA PROPERTY SITUATED AT PLOT NO. 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/12, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/18, 10/19, 10/20, 10/21, 10/22, 10/23, 10/24, 10/25, 10/26, 10/27, 10/28, 10/29, 10/30, 10/31, 10/32, 10/33, 10/34, 10/35, 10/36, 10/37, 10/38, 10/39, 10/40, 10/41, 10/42, 10/43, 10/44, 10/45, 10/46, 10/47, 10/48, 10/49, 10/50, 10/51, 10/52, 10/53, 10/54, 10/55, 10/56, 10/57, 10/58, 10/59, 10/60, 10/61, 10/62, 10/63, 10/64, 10/65, 10/66, 10/67, 10/68, 10/69, 10/70, 10/71, 10/72, 10/73, 10/74, 10/75, 10/76, 10/77, 10/78, 10/79, 10/80, 10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 10/85, 10/86, 10/87, 10/88, 10/89, 10/90, 10/91, 10/92, 10/93, 10/94, 10/95, 10/96, 10/97, 10/98, 10/99, 10/100, 10/101, 10/102, 10/103, 10/104, 10/105, 10/106, 10/107, 10/108, 10/109, 10/110, 10/111, 10/112, 10/113, 10/114, 10/115, 10/116, 10/117, 10/118, 10/119, 10/120, 10/121, 10/122, 10/123, 10/124, 10/125, 10/126, 10/127, 10/128, 10/129, 10/130, 10/131, 10/132, 10/133, 10/134, 10/135, 10/136, 10/137, 10/138, 10/139, 10/140, 10/141, 10/142, 10/143, 10/144, 10/145, 10/146, 10/147, 10/148, 10/149, 10/150, 10/151, 10/152, 10/153, 10/154, 10/155, 10/156, 10/157, 10/158, 10/159, 10/160, 10/161, 10/162, 10/163, 10/164, 10/165, 10/166, 10/167, 10/168, 10/169, 10/170, 10/171, 10/172, 10/173, 10/174, 10/175, 10/176, 10/177, 10/178, 10/179, 10/180, 10/181, 10/182, 10/183, 10/184, 10/185, 10/186, 10/187, 10/188, 10/189, 10/190, 10/191, 10/192, 10/193, 10/194, 10/195, 10/196, 10/197, 10/198, 10/199, 10/200, 10/201, 10/202, 10/203, 10/204, 10/205, 10/206, 10/207, 10/208, 10/209, 10/210, 10/211, 10/212, 10/213, 10/214, 10/215, 10/216, 10/217, 10/218, 10/219, 10/220, 10/221, 10/222, 10/223, 10/224, 10/225, 10/226, 10/227, 10/228, 10/229, 10/230, 10/231, 10/232, 10/233, 10/234, 10/235, 10/236, 10/237, 10/238, 10/239, 10/240, 10/241, 10/242, 10/243, 10/244, 10/245, 10/246, 10/247, 10/248, 10/249, 10/250, 10/251, 10/252, 10/253, 10/254, 10/255, 10/256, 10/257, 10/258, 10/259, 10/260, 10/261, 10/262, 10/263, 10/264, 10/265, 10/266, 10/267, 10/268, 10/269, 10/270, 10/271, 10/272, 10/273, 10/274, 10/275, 10/276, 10/277, 10/278, 10/279, 10/280, 10/281, 10/282, 10/283, 10/284, 10/285, 10/286, 10/287, 10/288, 10/289, 10/290, 10/291, 10/292, 10/293, 10/294, 10/295, 10/296, 10/297, 10/298, 10/299, 10/300, 10/301, 10/302, 10/303, 10/304, 10/305, 10/306, 10/307, 10/308, 10/309, 10/310, 10/311, 10/312, 10/313, 10/314, 10/315, 10/316, 10/317, 10/318, 10/319, 10/320, 10/321, 10/322, 10/323, 10/324, 10/325, 10/326, 10/327, 10/328, 10/329, 10/330, 10/331, 10/332, 10/333, 10/334, 10/335, 10/336, 10/337, 10/338, 10/339, 10/340, 10/341, 10/342, 10/343, 10/344, 10/345, 10/346, 10/347, 10/348, 10/349, 10/350, 10/351, 10/352, 10/353, 10/354, 10/355, 10/356, 10/357, 10/358, 10/359, 10/360, 10/361, 10/362, 10/363, 10/364, 10/365, 10/366, 10/367, 10/368, 10/369, 10/370, 10/371, 10/372, 10/373, 10/374, 10/375, 10/376, 10/377, 10/378, 10/379, 10/380, 10/381, 10/382, 10/383, 10/384, 10/385, 10/386, 10/387, 10/388, 10/389, 10/390, 10/391, 10/392, 10/393, 10/394, 10/395, 10/396, 10/397, 10/398, 10/399, 10/400, 10/401, 10/402, 10/403, 10/404, 10/405, 10/406, 10/407, 10/408, 10/409, 10/410, 10/411, 10/412, 10/413, 10/414, 10/415, 10/416, 10/417, 10/418, 10/419, 10/420, 10/421, 10/422, 10/423, 10/424, 10/425, 10/426, 10/427, 10/428, 10/429, 10/430, 10/431, 10/432, 10/433, 10/434, 10/435		

BANK OF INDIA, Stressed Assets Recovery Branch – II (51521)

494, Arya Smrj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005, Tel: 011-26725131 Fax: 26759674, e-mail: cbi.51521@cbi.co.in

PROVISO TO RULE 8 (6) NOTICE FOR SALE OF MOVABLE/IMMOVABLE PROPERTIES

NOTICE FOR E-AUCTION DATED 20.02.2023

ITS CHARGED TO THE BANK UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL INSTITUTIONS ACT, 2002 read with proviso to rule 8 (6) of the security interest (Enforcement Rules, 2002).

The Bank of India (Secured Creditor) has taken over possession (symbolic/physical) of the following properties/units 134/1 and 134/2 of the premises situated at 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18, 134/19, 134/20, 134/21, 134/22, 134/23, 134/24, 134/25, 134/26, 134/27, 134/28, 134/29, 134/30, 134/31, 134/32, 134/33, 134/34, 134/35, 134/36, 134/37, 134/38, 134/39, 134/40, 134/41, 134/42, 134/43, 134/44, 134/45, 134/46, 134/47, 134/48, 134/49, 134/50, 134/51, 134/52, 134/53, 134/54, 134/55, 134/56, 134/57, 134/58, 134/59, 134/60, 134/61, 134/62, 134/63, 134/64, 134/65, 134/66, 134/67, 134/68, 134/69, 134/70, 134/71, 134/72, 134/73, 134/74, 134/75, 134/76, 134/77, 134/78, 134/79, 134/80, 134/81, 134/82, 134/83, 134/84, 134/85, 134/86, 134/87, 134/88, 134/89, 134/90, 134/91, 134/92, 134/93, 134/94, 134/95, 134/96, 134/97, 134/98, 134/99, 134/100, 134/101, 134/102, 134/103, 134/104, 134/105, 134/106, 134/107, 134/108, 134/109, 134/110, 134/111, 134/112, 134/113, 134/114, 134/115, 134/116, 134/117, 134/118, 134/119, 134/120, 134/121, 134/122, 134/123, 134/124, 134/125, 134/126, 134/127, 134/128, 134/129, 134/130, 134/131, 134/132, 134/133, 134/134, 134/135, 134/136, 134/137, 134/138, 134/139, 134/140, 134/141, 134/142, 134/143, 134/144, 134/145, 134/146, 134/147, 134/148, 134/149, 134/150, 134/151, 134/152, 134/153, 134/154, 134/155, 134/156, 134/157, 134/158, 134/159, 134/160, 134/161, 134/162, 134/163, 134/164, 134/165, 134/166, 134/167, 134/168, 134/169, 134/170, 134/171, 134/172, 134/173, 134/174, 134/175, 134/176, 134/177, 134/178, 134/179, 134/180, 134/181, 134/182, 134/183, 134/184, 134/185, 134/186, 134/187, 134/188, 134/189, 134/190, 134/191, 134/192, 134/193, 134/194, 134/195, 134/196, 134/197, 134/198, 134/199, 134/200, 134/201, 134/202, 134/203, 134/204, 134/205, 134/206, 134/207, 134/208, 134/209, 134/210, 134/211, 134/212, 134/213, 134/214, 134/215, 134/216, 134/217, 134/218, 134/219, 134/220, 134/221, 134/222, 134/223, 134/224, 134/225, 134/226, 134/227, 134/228, 134/229, 134/230, 134/231, 134/232, 134/233, 134/234, 134/235, 134/236, 134/237, 134/238, 134/239, 134/240, 134/241, 134/242, 134/243, 134/244, 134/245, 134/246, 134/247, 134/248, 134/249, 134/250, 134/251, 134/252, 134/253, 134/254, 134/255, 134/256, 134/257, 134/258, 134/259, 134/260, 134/261, 134/262, 134/263, 134/264, 134/265, 134/266, 134/267, 134/268, 134/269, 134/270, 134/271, 134/272, 134/273, 134/274, 134/275, 134/276, 134/277, 134/278, 134/279, 134/280, 134/281, 134/282, 134/283, 134/284, 134/285, 134/286, 134/287, 134/288, 134/289, 134/290, 134/291, 134/292, 134/293, 134/294, 134/295, 134/296, 134/297, 134/298, 134/299, 134/300, 134/301, 134/302, 134/303, 134/304, 134/305, 134/306, 134/307, 134/308, 134/309, 134/310, 134/311, 134/312, 134/313, 134/314, 134/315, 134/316, 134/317, 134/318, 134/319, 134/320, 134/321, 134/322, 134/323, 134/324, 134/325, 134/326, 134/327, 134/328, 134/329, 134/330, 134/331, 134/332, 134/333, 134/334, 134/335, 134/336, 134/337, 134/338, 134/339, 134/340, 134/341, 134/342, 134/343, 134/344, 134/345, 134/346, 134/347, 134/348, 134/349, 134/350, 134/351, 134/352, 134/353, 134/354, 134/355, 134/356, 134/357, 134/358, 134/359, 134/360, 134/361, 134/362, 134/363, 134/364, 134/365, 134/366, 134/367, 134/368, 134/369, 134/370, 134/371, 134/372, 134/373, 134/374, 134/375, 134/376, 134/377, 134/378, 134/379, 134/380, 134/381, 134/382, 134/383, 134/384, 134/385, 134/386, 134/387, 134/388, 134/389, 134/390, 134/391, 134/392, 134/393, 134/394, 134/395, 134/396, 134/397, 134/398, 134/399, 134/400, 134/401, 134/402, 134/403, 134/404, 134/405, 134/406, 134/407, 134/408, 134/409, 134/410, 134/411, 134/412, 134/413, 134/414, 134/415, 134/416, 134/417, 134/418, 134/419, 134/420, 134/421, 134/422, 134/423, 134/424, 134/425, 134/426, 134/427, 134/428, 134/429, 134/430, 134/431, 134/432, 134/433, 134/434, 134/435, 134/436, 134/437, 134/438, 134/439, 134/440,

02.02.2023 for 4 hours from 11:00 am to 03:00 pm with unlimited extrn. of 10 min each				
Outstanding Dues for Recovery of which Properties is/are being Sold	Description of properties/ & Name of Title Deed Holder	Reserve Price (Rs.) (below which property could not be sold) Earnest Money (EMD) 10% of the Reserve Price Bid Increment Amount	Name of the Contact Person	
a	Rs. 31,11,029.00 on as 20.03.2022 Future interest and other charges extra	Flat No. F-1404, F Block, 13th floor, Terra Elegance, Aeris Express Highway No. 25, Bhimad, Rajasthan -300119, in the name of Mr. Kishan Singh S/o Mr. Sukul Singh (Symbolic Possession with the Bank)	Sh. Dharmendra Kumar (M-566020566) (M-997148683)	
a	Rs. 28,68,134.00 on as 20.03.2022 Future interest and other charges extra	Flat No. G-1506, Tower-G, 14th floor, Terra Elegance, Aeris Express Highway No. 25, Bhimad, Rajasthan in the name of Mr. Prashant Kumar S/o Shalendra Kumar Singh (Symbolic Possession with the Bank)	Sh. Dharmendra Kumar (M-566020566) (M-997148683)	

We hereby submit the Bidder's own sealed proposal with **MSTC Ltd** on its e-auction site <https://www.mstccommerce.com> for NEFT/EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated by his /her /her bidder account maintained with <https://www.mstccommerce.com/auction/home/bid/index.jsp> by means of NEFT from his /her /her bank. For any assistance, please contact 011-231-045421 and /or Authorized Officer (Contact Person).

AUCTION AREA'S UNDER

WHERE IS "AS IS WHAT IS" AND "WHATSOEVER THERE IS BASIS" and will be conducted "On Line". The auction will be service provided by **MSTC E-commerce** at their web portal <https://www.mstccommerce.com/auction/home/bid/index.jsp>, in the name of the Authorized Officer. There is no encumbrance on the properties. However the intending bidder should make their own circumstances. Title of the properties put up for auction and claims/rights/affecting the property prior to submitting their bid. The bidders and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with or without encumbrance or unknown to the Bank. The Auctioned Officer shall not be responsible in any way for any third party.

of the successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidders shall be returned to them without any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of the bid and the balance of the sale price on or before 15th day of the month of default of deposit amount by the successful bidder would entitle the bank to deposit and property shall be put up for the auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of the property.

conditions of the sale please refer to the link at the Bank's Service provider's web portal auctionhome/bid/index.jsp & at Bank's portal www.sbi.in
